



परिशिष्ट सारणी 11 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (सामान्य सेवाएं) (I से V)	1,86,885	2,21,970	2,19,709	2,40,585	17.6	-1.0	9.5
i. राज्य सरकार के अंग	4,127	5,010	5,343	5,457	29.4	6.6	2.1
ii. राजकीय सेवाएं	9,606	10,728	11,568	12,185	20.4	7.8	5.3
iii. ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती (1+2)	90,453	1,03,915	1,03,430	1,09,887	14.3	-0.5	6.2
1. ऋण में घट अथवा बचाव के लिए विनियोग	6,430	6,620	7,726	7,212	20.2	16.7	-6.7
2. ब्याज भुगतान	84,024	97,295	95,704	1,02,675	13.9	-1.6	7.3
iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)	34,298	42,985	42,511	49,066	23.9	-1.1	15.4
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,491	2,905	2,927	3,733	96.3	0.8	27.6
2. जिला प्रशासन	3,935	4,855	4,991	5,296	26.8	2.8	6.1
3. पुलिस	21,214	23,443	24,612	26,469	16.0	5.0	7.5
4. लोक निर्माण	3,039	4,038	4,225	4,431	39.0	4.6	4.9
5. अन्यⒶ	4,618	7,744	5,756	9,136	24.6	-25.7	58.7
V. पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	48,401	59,331	56,857	63,990	17.5	-4.2	12.5
II. पूँजी लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (1+2)							
1. विकासेतर (सामान्य सेवाएं)	2,737	4,168	4,275	4,941	56.2	2.6	15.6
2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क +ख)	399	480	492	604	23.4	2.4	22.9
क) सरकारी कर्मचारी	243	344	341	358	40.3	-0.8	4.7
ख) विविध	155	136	150	246	-3.3	10.5	64.1
III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)	1,90,021	2,29,618	2,24,475	2,46,130	18.1	-0.9	9.6
IV. कुल प्रादियों के प्रतिशत के रूप में III	31.9	34.3	33.3	32.1			
V. कुल संचितरण के प्रतिशत के रूप में III	33.8	34.6	32.6	32.1			

Ⓐ : इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और प्रशासन, जेल, आदि का व्यय शामिल है।

टिप्पणी : जन्म और कश्मीर तथा शारखंड के संबंध में वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

